

## माँ

पुण्यो केटलाये करी ने तारी वडवाई ओ बनिया छे माँ !  
अंधकारो केटलाये त्यजी ने तारी परछाईओ मां शम्या छे माँ !  
स्मित केटलाये सर्जी ने, तारा स्पर्श, कई दुखो भुलाव्या छे, माँ !  
कष्ट केटलाये भूली ने, तारी गोद मां, इश थी रम्या छे, माँ !  
प्रभु ने केटलाये स्मर्या, स्मृति मां छबी तारी ज पाम्या छे माँ !  
जन्म केटलाये जन्मिए, भवो भव मां, माता तमेज रहेशो, माँ !

मा

पुण्यो केटलाये करीने तारी वडवाईओ बनिया छे, माँ !  
अंधकारो केटलाये त्यजीने तारी परछाईओमां शम्या छे, माँ !  
स्मित केटलाये सर्जीने, तारा स्पर्श, कई दुःखो भुलाव्या छे, माँ !  
कष्ट केटलाये भूलीने, तारी गोदमां, इश थी रम्या छे, माँ !  
प्रभुने केटलाये स्मर्या, स्मृतिमां छबी तारी ज पाम्या छे, माँ !  
जन्म केटलाये जन्मिए, भवो भवमां, माता तमेज रहेशो, माँ !